



परिपत्र

दिनांक 12.1.2017
परिपत्र सं. शै-02/2017

विषय: गणतंत्र दिवस समारोह – 2017 के उपलक्ष्य में विद्यालयों के कक्षा VI-X के बच्चों हेतु एक गतिविधि के रूप में पेंटिंग/ड्राइंग प्रतियोगिता का आयोजन किया जाएगा।

1. मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार ने गणतंत्र दिवस के समारोह 2017 के संदर्भ में की जाने वाली गतिविधियों /पहल के रूप में, देश भर के विद्यालयों केवीएस, एनवीएस, के.मा.शि.बो. और राज्यों और संघ शासित प्रदेश के विद्यालयों में पेंटिंग ड्राइंग प्रतियोगिता के संचालन की घोषणा की है।

2. प्रतियोगिता के लिए श्रेणियां और विषय निम्नानुसार हैं

छात्रों की श्रेणी	प्रतियोगिता के लिए विषय
श्रेणी 1 कक्षाएं VI VIII	स्वच्छ भारत मेरे सपनों का स्कूल
श्रेणी 2 कक्षाएं IX-X	एक भारत श्रेष्ठ भारत डिजिटल इंडिया

3. छात्र ए 4 आकार के किसी भी प्रकार के कागज़ का उपयोग कर सकते हैं और अपनी पसंद के तेल / पेस्टल / पानी के रंग का उपयोग कर सकते हैं।

4. कार्यक्रम की समय-रेखा निम्नानुसार है:

गतिविधि	तारीख
विद्यालय स्तर पर प्रतियोगिता की तिथि	16/17 जनवरी, 2017
विद्यालय द्वारा संबंधित क्षेत्रीय कार्यालयों को विजेता प्रविष्टियों का अग्रेषण (केवीएस/एनवीएस/के.मा.शि.बो. के मामले में)	19 जनवरी, 2017 (अपराहन 5:30 तक)
क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा, प्रत्येक श्रेणी की 10 सर्वश्रेष्ठ विनिर्णीत प्रविष्टियों को केवीएस/एनवीएस/के.मा.शि.बो. के मुख्यालयों को अग्रेषित करना	21 जनवरी, 2017
मा.स.वि. मं. की वेबसाइट (www.mhrd.gov.in) पर केवीएस / एनवीएस / के.मा.शि.बो और राज्य एवं संघ शासित प्रदेशों द्वारा शीर्ष 20 उत्कृष्ट जीतने वाली प्रविष्टियों को अपलोड करना	24 जनवरी, 2017





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

5. राज्य और केंद्र शासित प्रदेश, प्रतियोगिता के संचालन और प्रविष्टियों के मिलान हेतु अपनी प्रक्रियाओं और समयरेखा का अनुपालन करेंगे जिससे मा.स.वि.मं. की वेबसाइट पर 20 सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियाँ अपलोड किया जा सके।
6. विजेता छात्रों को कोई नकद पुरस्कार नहीं दिया जाएगा। तथापि, भाग लेने वाले बच्चों को सहभागिता का ई प्रमाण पत्र तथा-सर्वश्रेष्ठ जीतने वाली प्रविष्टियों को प्रवीणता का ई-प्रमाण पत्र दिया जाएगा।
7. विद्यालयों के प्रमुखों से अनुरोध है कि वे अपने छात्रों को इस प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें।
8. प्रविष्टियों पर अभिव्यक्ति की मौलिकता प्रस्तुति, विषय और तकनीक की प्रासंगिकता के आधार पर निर्णय लिया जाएगा।
9. विद्यालय स्तर पर प्रत्येक श्रेणी की सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टियाँ, विद्यालय के प्रमुख द्वारा विधिवत हस्ताक्षरित और सत्यापित करके अग्रेषित की जाएंगी। इसमें छात्र का नाम, कक्षा, पता संपर्क नंबर और ई मेल आईडी अवश्य होने चाहिए।
10. विद्यालय के प्रमुख (केवीएस/ एनवीएस/ सीबीएसई) दोनों श्रेणियों में से सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि एक बंद लिफाफे पर "गणतंत्र दिवस समारोह 2017" के अवसर पर आयोजित ड्राइंग /पेंटिंग प्रतियोगिता की "सर्वश्रेष्ठ प्रविष्टि" शीर्षक लिखकर अग्रेषित करेंगे।
11. उपरोक्त बिन्दु संख्या 4 पर उल्लेखित समय रेखा के अनुसार यदि प्रविष्टियाँ प्राप्त नहीं हुई तो उन पर विचार नहीं किया जाएगा। इसके अतिरिक्त ई-मेल के माध्यम से प्राप्त प्रविष्टियों पर भी विचार नहीं किया जाएगा।
12. किसी भी परिस्थिति में, परिणाम की घोषणा/ विजेता की प्रविष्टि के संबंध में किए गए किसी भी पत्राचार पर विचार नहीं किया जाएगा

हस्ता / -

(मनोज कुमार श्रीवास्तव)

संयुक्त सचिव और प्रभारी (शै. अ. प्र. एवं न.)

प्रतिलिपि: संबंधित निदेशालयों / केवीएस / एनवीएस / सीटीएसए के सभी प्रमुखों को एवं उनके अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत सभी संबंधित विद्यालयों को जानकारी का प्रसार करने हेतु:

1. आयुक्त, केवीएस, 18-संस्थागत क्षेत्र, शहीदजीत सिंह मार्ग, नई दिल्ली।
2. आयुक्त, एनवीएस, बी -15, सेक्टर -62, इंस्टीट्यूशनल एरिया, नोएडा
3. शिक्षा निदेशक, शिक्षा निदेशालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, दिल्ली सरकार, पुराना सचिवालय, दिल्ली





केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड
CENTRAL BOARD OF SECONDARY EDUCATION

4. लोक शिक्षण निदेशक (स्कूल), केन्द्र शासित प्रदेश सचिवालय, सेक्टर 9, चंडीगढ़ 160017
5. शिक्षा निदेशक, सिक्किम सरकार, गंगटोक, सिक्किम
6. स्कूल शिक्षा निदेशक, अरुणाचल प्रदेश सरकार, इटानगर
7. शिक्षा निदेशक, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह, पोर्ट ब्लेयर
8. शिक्षा निदेशक, एस.आई.ई. सीबीएसई सेल, वीआईपी रोड, जंगली घाट, पी.ओ- 744 103, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह
9. सचिव, केंद्रीय तिब्बती स्कूल प्रशासन, ईएसएस प्लाजा, सामुदायिक केंद्र, सेक्टर 3 रोहिणी, दिल्ली।
10. अतिरिक्त महानिदेशक सेना शिक्षा, ए-विंग, सेना भवन, डीएचक्यू पीओ, नई दिल्ली।
11. सचिव आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसायटी रक्षा मंत्रालय (आर्मी) एकीकृत मुख्यालय, एफडीआरसी बिल्डिंग नं 22, शंकर विहार (निकट एपीएस) दिल्ली कैंट
12. उपसचिव, (यू.टी), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली (सूचनार्थ एवं की गई कार्रवाई के अनुपालन हेतु)
13. अवर सचिव, (ई ई -1), मानव संसाधन विकास मंत्रालय, शास्त्री भवन, नई दिल्ली
14. केमाशिबो के सभी क्षेत्रीय निदेशक / क्षेत्रीय अधिकारियों को इस अनुरोध के साथ कि वे अपने संबंधित क्षेत्रों में बोर्ड के संबद्ध विद्यालयों के सभी प्रमुखों को इस परिपत्र को भेज दें।
15. शैक्षणिक एवं व्यावसायिक प्रकोष्ठ के सभी अतिरिक्त निदेशक/ संयुक्त निदेशक/ उप निदेशक/सहायक निदेशक के.मा.शि.बो.
16. सूचना-प्रौद्योगिकी अधिकारी प्रभारी को इस अनुरोध के साथ कि इस परिपत्र को के.मा.शि.बो की वेबसाइट पर डाल दें।
17. पुस्तकालय सहायक, के.मा.शि.बो.
18. जनसंपर्क अधिकारी, केमाशिबो
19. हिंदी अधिकारी, केमाशिबो
20. अध्यक्ष के कार्यकारी अधिकारी, केमाशिबो
21. सचिव/परीक्षा नियंत्रक/ निदेशक (विशेष परीक्षा और सीटीईटी)/ निदेशक (नेट)/ कार्यकारी निदेशक (जेएबी)/ विशेष कार्य अधिकारी (एनईईटी) के व. निजी सचिव, के.मा.शि.बो.
22. निदेशक (सूचना प्रौद्योगिकी) के व. निजी सचिव, केमाशिबो

संयुक्त सचिव और प्रभारी (शै. अ. प्र. एवं न.)

